



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ 1946 (श०)
(सं० पटना 628) पटना, सोमवार, 15 जुलाई 2024

उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
कार्यालय अपर निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश
4 जुलाई 2024

सं० 722—प्रबंध निदेशक, सिवान को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल लि०, सिवान के पत्रांक-309 दि०-09.07.2022 तथा पत्रांक-356 दि०-13.08.2022 द्वारा सिवान को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल लि०, सिवान के परिसमापन हेतु अनुशंसा की गई है जिसके आधार पर निदेशालय ज्ञापांक-2048 दिनांक-09.11.2022 द्वारा बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 की धारा 44 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त सहकारी सूत मिल के परिसमापन का आदेश दिया गया।

साथ ही बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 की धारा 44 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण कुमार राय, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को पंडौल को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल लि०, मधुबनी का परिसमापक नियुक्त किया गया, लेकिन दिनांक-29.02.2024 को श्री कृष्ण कुमार राय, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2716 दि०-24.05.2024 के आलोक में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु उनके स्थान पर परिसमापक की नियुक्ति की जानी है।

अतएव मैं विवेक रंजन मैत्रेय, अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 की धारा 44 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विवेक कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सिवान को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल लि०, सिवान को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अबिलंब उक्त स्पीनिंग मिल की सभी परिसम्पत्तियों/अभिलेखों/कागजातों का प्रभार ग्रहण करेंगे एवं बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 तथा बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स, 1959 में निहित सुसंगत प्रावधानों के आलोक में परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 628-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>